



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-03.07.2022

## थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी गये 23500/-रुपये,02 अदद मोबाइल फोन व अन्य माल के साथ वांछित अभियुक्ता पायल श्रीवास्तव गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-204 धारा 380/411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता पायल श्रीवास्तव पत्नी राजू सिंह निवासिनी-575 शिवनगर मतवंतपुर आवास विकास कल्याण कानपुर नगर व हाल पता एस-17/107 इन्द्रपुर थाना शिवपुर वाराणसी को दैत्राबीर बाबा मन्दिर के पास से आज दिनांक-03.07.22 को समय 14.40 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-02.07.2022 को वादिनी मुकदमा श्रीमती अर्चना केशरी पत्नी विनय त्रिपाठी निवासीनी-रामेष्ठ नगर कालोनी,पंचकोशी रोड पाण्डेयपुर वाराणसी ने उनके घर से तीन मोबाइल,कुछ गहने,लगभग 23500/- रुपया नगद व उनके समस्त दस्तावेज (डेबिट कार्ड,पैन कार्ड,आधार आदि) रात में सोने के दौरान चोरी हो जाने के संबंध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-204 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 कमलेश वर्मा चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी द्वारा संपादित की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

पायल श्रीवास्तव पत्नी राजू सिंह निवासिनी-575 शिवनगर मतवंतपुर आवास विकास कल्याण कानपुर नगर व हाल पता एस-17/107 इन्द्रपुर थाना शिवपुर वाराणसी, उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- चोरी गया 23500/- रुपया नगद, 02 अदद मोबाइल फोन कंपनी रियल-मी, एक अदद ब्राउन रंग का पर्स, एक अदद एटीएम कार्ड एक्सिस बैंक, एक अदद एटीएम कार्ड बैंक आफ बड़ौदा, एक अदद आधार कार्ड, एक अदद निर्वाचन कार्ड, एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस, एक अदद आरसी बरामद ।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.नि0 सतीश कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ0नि0 कमलेश वर्मा चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.उ0नि0 आनन्द कुमार चौरसिया चौकी प्रभारी जिला जेल थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार मौर्य थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.का0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6.का0 मनीष कुमार तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 7.म0का0 तारा तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 8.म0का0 सरस्वती देवी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी